



जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कारपोरेट पहचान संख्या (CIN) - U40109RJ2000SC-C016483

राज्य कार्यालय : न्यू पब्लिक हाऊस, जोधपुर-342003

फोन नं. : 0291-2742367; फॅक्स नं. : 0291-2742367

ई-मेल - jdvnpl@gmail.com वेब-साइट : www.jdvnpl.com

क्रमांक : प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-कार्मिक/पत्रा. /का.आ.20/प्रे.सं. 203 दिनांक 17-07-18

आदेश

निगम के दिवंगत कर्मचारियों के निम्नांकित आश्रितों को अधिमानता के आधार पर उनके नाम के आगे अंकित पद पर दो वर्ष की परीक्षा काल की अवधि के लिए प्रोवेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाती है तथा उनका पदस्थापन उनके नाम के आगे अंकित कार्यालय में किया जाता है:-

क्र. सं.	आश्रित का नाम एवं मृतक कर्मचारी का नाम व कार्यालय	जन्म दिनांक	पदनाम	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1.	श्रीमती शारदा पत्नी स्व. श्री अजय कुमार कार्यालय सहायक अभियंता (ग्रामीण) नोखा	15-12-88	वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय	सहायक अभियंता (ग्रामीण) बीकानेर
2.	श्री अजय सिंह पुत्र स्व. श्री पूनमसिंह, कार्यालय सहायक अभियंता (एच.टी.एम.-द्वितीय) जोधपुर	07-07-97	वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय	सहायक अभियंता (सी -तृतीय) जोधपुर
3.	श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री पुखराज कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पवस) पाली (एस.सी.)	01-01-66	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	उप निदेशक कार्मिक (पवस) पाली
4.	श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व. श्री बनाराम भील कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जालोर (एस.टी.)	01-01-82	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सहायक अभियन्ता (पवस) सायला
5.	श्रीमती चन्दू देवी पत्नी स्व. श्री ओमाराम कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) पचपदरा (ओ.बी.सी.)	20-07-93	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सहायक अभियन्ता (पवस) बालेसर
6.	कु. पूजा पुत्री स्व. श्री देवीसिंह कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) कालंद्री (ओ.बी.सी.)	05-12-98	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सहायक अभियन्ता (पवस) खारची
7.	श्री राणाराम पुत्र स्व. श्रीमती लीला देवी कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) सुमेरपुर (एस.टी.)	01-01-85	सहायक-द्वितीय	सहायक अभियन्ता (पवस) सुमेरपुर
8.	श्री जगदीश पुत्र स्व. श्री कचराराम कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) मंडोर (ओ.बी.सी.)	01-07-88	सहायक-द्वितीय	सहायक अभियन्ता (पवस) मंडोर
9.	श्री कैलाश पुत्र स्व. श्री प्रकाश कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) नोखा (एस.सी.)	01-07-89	सहायक-द्वितीय	सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) नोखा
10.	श्री संजय खान पुत्र स्व. श्री मूसा खान कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) स्वरूपगंज	15-04-90	सहायक-द्वितीय	सहायक अभियन्ता (पवस) स्वरूपगंज
11.	श्री भोलाराम पुत्र स्व. श्री मांगीलाल कार्यालय सहायक अभियन्ता (न.उ.ख.बी.-चतुर्थ) जोधपुर (एस.सी.)	16-07-91	सहायक-द्वितीय	सहायक अभियन्ता (न.उ.ख.बी.-चतुर्थ) जोधपुर प्रतिनियुक्ति कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ए. एण्ड सी.) जोधपुर
12.	श्री सवाई लाल पुत्र स्व. श्री नैनाराम कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) चामू	05-06-92	सहायक-द्वितीय	सहायक अभियन्ता (पवस) चामू
13.	श्री प्रमोद सिंह पुत्र स्व. श्री श्रवण सिंह कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) लूणकरणसर	30-04-94	सहायक-द्वितीय	सहायक अभियन्ता (पवस) लूणकरणसर
14.	श्री फकीर चंद पुत्र स्व. श्री सेवाराम कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) छतरगढ़ (एस.सी.)	16-06-94	सहायक-द्वितीय	सहायक अभियन्ता (पवस) छतरगढ़

लगातार.....2

नियम एवं शर्त :-

1. नियुक्ति दो वर्ष के लिये परिवीक्षा प्रशिक्षण के रूप में है। इस दौरान राजस्थान सरकार की अधिसूचना के प्रावधानान्तर्गत निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं इसके अंतर्गत अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मँहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सूविधाएँ एवं अवकाश संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/विभागाध्यक्ष (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा स्वीकृत की जावेगी। सभी नियुक्त आश्रितों को यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यालय समय में धूम्रपान करते पाए जाने पर 200/- तक का जुर्माना तथा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी।

2. वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय के पद पर नियुक्त प्रशिक्षार्थी आश्रित को 1 वर्ष की समयावधि में निम्नानुसार कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा :-

"O" or Higher Level Certificate course conducted by DOEACC under control of Department of Electronics, Government of India.

Or

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme.

Or

Diploma in Computer Science/Computer Applications from a University established by law in India or from an institution recognized by the Government.

Or

Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.

Or

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

3. वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियमानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त टंकण परीक्षा कम्प्यूटर द्वारा ली जाएगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

4. कार्य ग्रहण करते समय पदधारी को प्राधिकृत चिकित्सक जो कि जिला चिकित्साधिकारी (जिस जिले में कर्मचारी का मुख्यालय स्थित है) के स्तर से कम नहीं होगा, द्वारा दिया गया आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस मामले में पदधारी पूर्णतया आरोग्य होने पर कार्य पर उपस्थिति हो सकेगा। उसे चिकित्सा परीक्षण हेतु दिये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु मूल रसीद प्रस्तुत करनी होगी एवं निम्न लिखित प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे :-

अ) मूल शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र

लगातार.....3

ब) दो उत्तरदायी व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा दिए गए चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

स) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/शारीरिक रूप से विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र (अगर इस वर्ग से सम्बन्धित हो तो)।

द) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी नवीनतम चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति (यह प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।

य) शपथ पत्र कि अभ्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया, वह कभी पुलिस अभिरक्षा में नहीं रहा है एवं वर्तमान में उसके विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है।

5. कार्य ग्रहण करते समय पदधारी 50/- रुपये का नॉन-जुडीशियल स्टाम्प पर यह घोषणा (Undertaking) लिखकर प्रस्तुत करेगा कि वह मृतक कर्मचारी के परिवारजनों/आश्रितों की पूरी देखभाल करेगा एवं मृतक कर्मचारी का कोई भी आश्रित केन्द्र/राज्य सरकार से पूर्णतया/भागतः नियंत्रित संस्थान, निगम/बोर्ड में सेवारत नहीं है एवं मृतक कर्मचारी की पत्नी ने पूर्णविवाह नहीं किया है तथा आवेदन पत्र में कोई सारवान तथ्य छिपाया तथा गलत नहीं लिखा गया है। यदि ऐसा पाया गया कि अनुकम्पा के आधार पर नौकरी मिलने के पश्चात् वह मृतक कर्मचारी के आश्रितों की देखभाल नहीं कर रहा/रही हैं या गलत तथ्य देकर या सारवान तथ्य छिपा कर नियुक्ति प्राप्त की है तो कारण बताओ नोटिस के जरिये जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उसकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा।

उपरोक्त शपथ पत्र किसी तहसीलदार या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए।

6. सेवा की अन्य शर्तें जो कि समय-समय पर इस वर्ग के कर्मचारियों के लिये लागू की जावेगी वे उपरोक्त नियमों व शर्तों के पूर्वाग्रह रहित समान रूप से लागू होगी।
7. पदधारी को एक माह का नियत पारिश्रमिक बतौर नकद प्रतिभूति अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में अग्रिम जमा करवाना होगा। अथवा एक माह का नियत पारिश्रमिक अथवा पदधारी को निगम के किसी स्थायी कर्मचारी द्वारा यह जमानत भरकर प्रस्तुत करनी होगी कि पदधारी द्वारा बिना एक माह का नोटिस दिये सेवा छोड़ जाने की स्थिति में वह एक माह का नियत पारिश्रमिक जमा करवायेगा एवं स्थायी कर्मचारी का नियन्त्रक अधिकारी यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि प्रतिभूति सम्बन्धी प्रविष्टि उसकी सेवा-पुस्तिका में कर ली गयी है।
8. पदधारी की सेवायें किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का फिक्सड रेमुनरेशन अथवा वेतन (विशेष वेतन यदि कोई हो तो) तथा मंहगाई भत्ता देकर समाप्त की जा सकती हैं, किन्तु कदाचार/दुराचार, पुलिस द्वारा चरित्र सम्बन्धी प्रतिवेदन पक्ष में नहीं होने के मामले में सेवायें समाप्त की जायेगी तो किसी प्रकार की लिखित सूचना अनिवार्य नहीं होगी। सेवा की अवधि के पूर्व सेवा समाप्ति के कारण किसी भी प्रकार की प्रतिभूति व क्षतिपूर्ति के योग्य नहीं होगी।
9. पदधारी को आवश्यकतानुसार निगम के किसी भी भाग में या जोधपुर विद्युत वितरण निगम की अन्य संयुक्त परियोजनाओं में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।

10. वेतन श्रृंखला:-

प्रोबेशनर ट्रेनी को दो वर्ष तक प्रतिमाह निम्न फिक्सड रेमुनरेशन देय होगा।

1. वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय	14,600/-
2. सहायक प्रथम	13,500/-
3. सहायक द्वितीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	12600/-
4.	



लगातार.....4

11. उपरोक्त नियुक्त कार्मिकों को देय भृति लाभ एवं अन्य लाभ नियुक्ति के साथ ही स्वतः बन्द हो जायेंगे एवं उपरोक्त कार्मिक कार्यग्रहण के समय यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे उपरोक्त लाभ प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं तथा उपरोक्त तथ्य की सूचना कार्यालय अध्यक्ष/ नियन्त्रण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यालय को कार्यग्रहण के सात दिवस में प्रेषित की जायेगी।
12. उपरोक्त कार्मिकों की सेवायें निगम के आदेश 966 दिनांक 07.09.2006 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफ.डी/रूल्स/2006 दि. 13.03.2006, एफ 16(5)/ एफ.डी/रूल्स/198 दि. 13.03.2006, एफ 13(1) एफ.डी/रूल्स/2003 दि. 13.03.2006, एफ 16(2) एफ.डी/रूल्स/98 दि. 13.03.2006, एफ 6(6) एफ.डी/रूल्स/2005 दि. 13.03.2006, एफ 12(6) एफ.डी/रूल्स/2003 दि. 13.03.2006 के अनुसार शासित होगी।
13. प्रार्थी कार्यग्रहण करते समय यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि मैं विवाहित/अविवाहित हूँ एवं यदि विवाहित है तो उसके दो से अधिक संतान नहीं है। यदि दो से अधिक संतान है तो 1 जून 2002 के पश्चात् कोई संतान नहीं हुई है। यह शर्त मृतक कर्मचारी की पत्नी के नियोजन पर लागू नहीं होगी। यदि दो से अधिक संतान पायी जाती है तो प्रार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा एवं यदि कार्यग्रहण करवा दिया है तो भी सेवा से हटाया जावेगा।
14. पदधारी को आदेश जारी होने के 30 दिवस में पदस्थापित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा तथा कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही मेडीवलेम इन्श्योरेन्स पॉलिसी अथवा इ.एस.आई. (जेसी भी स्थिति हो) तथा ग्रुप पर्सनल एक्सीडेन्ट इन्श्योरेन्स एकीम एवं सी.पी.एफ. के आवश्यक प्रपत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी को तत्काल प्रस्तुत करेगा तथा नियंत्रण अधिकारी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे एवं नियंत्रण अधिकारी तत्काल कर्मचारी की राशि नियमानुसार जमा करवाएंगे तथा प्रपत्र संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करवाएंगे।
15. उपरोक्त नियुक्ति आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं एवं दस्तावेजों के आधार पर दी गयी है। कोई तथ्य किसी भी समय असत्य/भ्रामक/मिसलिडिंग पाये जाते हैं तो दी गई नियुक्ति रद्द करने के साथ ही आवेदक के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकेगा।
16. कार्यग्रहण के पश्चात् तकनीकी कर्मचारी तकनीकी कामगार प्रशिक्षण केन्द्र पुराना पॉवर हाउस जोधपुर में प्रशिक्षण लेंगे। जिसकी सूचना उन्हें संबंधित कार्यालय द्वारा प्रेषित की जावेगी तत्पश्चात् संबंधित सहायक अभियन्ता/कार्यालयाध्यक्ष उन्हें कार्यमुक्त कर भेजना सूनश्चित करेंगे।
17. नियंत्रण अधिकारी कर्मचारियों के मूल दस्तावेजों का संबंधित संस्थान/विभाग से सत्यापित करवायेंगे।

आज्ञा से

(आर.डी.बारठ)

आर.ए.एस

सचिव (प्रशासन)


जोधपुर डिस्कॉम : जोधपुर

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ता () जोधपुर डिस्कॉम,.....।
2. मुख्य लेखा नियंत्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी (आई.ए. एण्ड ए/बी.एण्ड.आर/पी.एण्ड.एफ) जोधपुर डिस्कॉम/राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जोधपुर/जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता(नगर/जिला/पवस/.....), जोधपुर डिस्कॉम,.....।

लगातार.....5

5. प्रावैधिक सहायक प्रबन्ध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. प्रावैधिक सहायक/निजी सहायक-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
7. कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता () जोधपुर डिस्कॉम,
9. उप निदेशक कार्मिक (जो.जो./बी. जो./बा.जो.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
10. कार्मिक अधिकारी (नगर/जिला/पवस), जोधपुर डिस्कॉम,.....।
11. लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/.....), जोधपुर डिस्कॉम,.....को इन निर्देशों के साथ कि वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त कर्मचारियों के कार्यग्रहण करते ही उनका मेडिकलेम व गुप इश्योरेंस की राशि उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित कार्यालय में जमा करवा दी गई है तथा प्रथम वेतन बिल पारित करते समय पर संबंधित कर्मचारी की ई.एस.आई. एवं सी.पी.एफ. की कटौती की जाकर संबंधित प्रपत्र मय शुल्क संबंधित कार्यालय में जमा करवा दी जावें।
12. जन सम्पर्क अधिकारी,, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
13. सहायक अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,.....को इन निर्देशों के साथ कि वे उक्त कर्मचारी के कार्यग्रहण के समय ही मेडीक्लेम या ई.एस.आई. तथा गुप इन्श्योरेंस के आवश्यक प्रपत्र भरवाकर संबंधित कार्यालय में बिना विलम्ब के जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा प्रथम बिल विपत्र के साथ सी.पी.एफ. के प्रपत्र मय नियमानुसार कटौती प्रस्तावित करना सुनिश्चित करें। इस आदेश से नियुक्त तकनीकी कामगार को कार्यग्रहण के पश्चात् प्रशिक्षण के लिये पुराने पॉवर हाउस जोधपुर में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।
14. श्री


17/07/10
संयुक्त निदेशक कार्मिक
जोधपुर डिस्कॉम : जोधपुर